

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28092024-257580
SG-DL-E-28092024-257580असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2024/आश्विन 4, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 194
No. 39]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024/ ASVINA 4, 1946	[N. C. T. D. No. 194

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

सं. 74/गजट/पी.एफ./अधिवर्षिता/2024.—दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी व वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय परिसर, के रूप में नियुक्त श्री विमल कुमार यादव, दिनांक 31 जनवरी, 2025 (अपराह्न) को 60 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार यादव के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत किसी प्रकार की अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही लंबित या विचाराधीन नहीं है।

आदेशानुसार,

कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 26th March, 2024

No. 74/Gaz/P.F./Superannuation/2024.—Mr. Vimal Kumar Yadav, Officer of Delhi Higher Judicial Service and presently posted as Principal District & Sessions Judge, New Delhi District, Patiala House Court Complex, shall stand retired from Delhi Higher Judicial Service in the afternoon of 31st January, 2025 on attaining the age of superannuation of 60 years.

It is certified that no disciplinary/departmental proceedings under All India Service (Discipline & Appeal) Rules, 1969 is pending or contemplated against Mr. Vimal Kumar Yadav.

By Order,

KANWAL JEET ARORA, Registrar General